

HINDI DAY

14TH SEPTEMBER, 2018



Dr. V. Narayana Rao, Principal honoured with a bouquet



Dr. P. Srinivasa Rao, Prof. in Hindi, DBHPS



Sri E. Vara Prasad, Vice - Principal honoured with a bouquet



Sri P. L. Ramesh, Director, Academics & Planning



Sri T. Bhagya Kumar, Principal, Jr. College honoured with a bouquet



Dr. G. Sambasiva Rao, Convenor, Kalavedika



Speech in Hindi by Dr. V. Narayana Rao,
Principal



Introducing the Resource Person by
Smt. Jayalakshmi, Lecturer in Hindi



Dr. P. Srinivasa Rao, Prof. in Hindi, DBHPS addressing the
students



Students at the programme

Poster Presentation by KBN Students



Chief guest and other delegates observing the students poster presentations

Prize distribution to winners



Felicitation to the Chief Guest

INVITATION

ISO 9001:2015 KAAC 'A' GRADE

K.B.N. COLLEGE (AUTONOMOUS)
(Sponsored by S.K.P.V.V Hindu High Schools' Committee)
Kothepata, Vijayawada - 520 001
A College with potential for Excellence (CPE)
All India 92nd Rank in NIRF by MHRD (2017)

INVITATION

DEPARTMENT OF HINDI
Cordially invites you to the
Guest Lecture on
"HINDI DAY"
By
Dr. Perisetty Srinivasa Rao
Professor, Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha
On 14th September, 2018 @ 11.00 A.M
Venue: Vivekananda Seminar Hall

Presided by
Dr. V. Narayana Rao
Principal

ISO 9001:2015 KAAC 'A' GRADE

K.B.N. COLLEGE (AUTONOMOUS)
(Sponsored by S.K.P.V.V Hindu High Schools' Committee)
Kothepata, Vijayawada - 520 001
A College with potential for Excellence (CPE)
All India 92nd Rank in NIRF by MHRD (2017)

INVITATION

DEPARTMENT OF HINDI
Cordially invites you to the
Guest Lecture on
"HINDI DAY"
By
Dr. Perisetty Srinivasa Rao
Professor, Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha
On 14th September, 2018 @ 11.00 A.M
Venue: Vivekananda Seminar Hall

Presided by
Dr. V. Narayana Rao
Principal

REPORT

काकरपति भवनारायण कलाशाला (स्वायत्त) हिंदी दिवस – समारोह (14 सितंबर, 2018)

दिनांक : शुक्रवार, 14 सितंबर, 2018

विजयवाड़ा, 14 सितंबर – विजयवाड़ा, के.बि.एन. कलाशाला (काकरपति भवनारायण कलाशाला) में 'हिंदी-दिवस' समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. पेरिशेट्टि श्रीनिवास राव, विशिष्ट अतिथि श्री तूनुगुंदला श्रीनिवास राव, सभाध्यक्ष और संयोजक कॉलेज के प्रिन्सिपाल डॉ. वी. नारायण राव, के. बि. एन. कलावेदिका के कन्वीनर डॉ. गुम्मा सांभ शिवराव, जूनियर कलाशाला के प्रिन्सिपाल श्री टी भाग्य कुमार, वैस प्रिन्सिपाल वी. वर प्रसाद राव, वैस प्रिन्सिपाल डॉ. नवीन, उपस्थित थे। हिंदी विभाग से मुख्य अतिथि तथा प्रमुख वक्ता डॉ. पेरिशेट्टि श्रीनिवास राव ने अपने व्याख्यान में कहा कि – "आज का युग – भूमंडलीकरण का युग है। इक्कीसवीं सती को तो 'अनुवाद का युग' ही कहा जाता है। क्योंकि दिन-ब-दिन दुनिया नजदीक आ रही है। दुनिया के परस्पर निकट आने के कारणों में एक कारण अनुवाद भी है। इसलिए वर्तमान संदर्भ को दृष्टि में रखकर हिंदी की पढ़ाई करने से सरकारी कार्यालयों में अनुवादक की नौकरी के साथ साथ विज्ञापन, सिनेमा, साफ्टवेर कंपनियों में, पत्रकारिता जैसे विभिन्न प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में रोजगारी की अपार संभावनाएँ हैं।

सभाध्यक्ष और प्रिन्सिपाल डॉ. वी. नारायण राव जी ने अपने भाषण में हिंदी भाषा का महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि भारत की सबसे सुंदर और सरल भाषा हिंदी है। इस भाषा को सीखने की आवश्यकता है और अपनाना हमारा कर्तव्य है।

के.बि. एन कलाशाला के छात्र-छात्राओं द्वारा फोटों प्रदर्शन और पी.पी.टी. प्रस्तुतीकरण हुआ।

विभिन्न विद्यालयों से और महाविद्यालयों से छात्र-छात्राएँ और हिंदी प्रेमी प्रदर्शनी का दर्शव किये।

विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदी विभाग के प्राध्यापकगण जयलक्ष्मी, जानकी, रेणुका और अन्य बड़-चढ़कर भाग लिये।